

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2014—आश्विन 4, शक 1936

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर

दिनांक 22 सितम्बर 2014

शुद्धि-पत्र

क्र. 1534-ए-परिसीमन, छिन्दवाड़ा 2014.—दिनांक 16 सितम्बर 2014 इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा के वार्डों का विस्तार अवधारित करते हुए उनकी चतुर्सीमाएं मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-2, दिनांक 19 सितम्बर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 3688 से 3721 में प्रकाशित की गई है. अधिसूचना के हिन्दी प्रारूप के पृष्ठ क्रमांक 3707 के पश्चात् एवं पृष्ठ क्रमांक 3708 के पूर्व निम्नानुसार पढ़ा जाए:—

वार्ड क्र. 47—पं. माखनलाल चतुर्वेदी वार्ड

**उत्तर.**— ग्राम लोनिया करबल की पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ग्राम लोनिया करबल की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा तक.

**पूर्व.**— ग्राम लोनिया करबल की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर चक्कर रोड स्थित रेल्वे क्रॉसिंग लोनिया करबल की अंतिम सीमा तक.

**दक्षिण.**— चक्कर रोड स्थित रेल्वे क्रॉसिंग लोनिया करबल की अंतिम सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर रेल्वे मार्ग होते हुए अनुसुईया उईके के मकान स्थित लोनिया करबल की अंतिम पश्चिमी दक्षिणी सीमा तक.

**पश्चिम.**— अनुसुईया उईके के मकान स्थित लोनिया करबल की अंतिम पश्चिमी दक्षिणी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ग्राम लोनिया करबल की पश्चिमी उत्तरी सीमा तक.

## वार्ड क्र. 48—पंचवटी वार्ड

**उत्तर.**— ग्राम पोआमा की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ग्राम पोआमा की उत्तरी सीमा से होते हुए ग्राम पोआमा की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा तक.

**पूर्व.**— ग्राम पोआमा की उत्तरी पूर्वी अंतिम सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर पोआमा ग्राम की पूर्वी सीमा होते हुए परासिया रोड तक पुनः पूर्व की ओर परासिया रोड होते हुए पुनः उत्तर की ओर रेल्वे लाइन तक पुनः पूर्व की ओर रेल्वे लाइन होते हुए लोनिया.

शेष विवरण प्रकाशित पृष्ठ क्रमांक 3708 से निरंतर होगा.

दीपक खाण्डेकर, आयुक्त.

जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2014

पत्र क्र. 1610-पांच-3-2014.—मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 सितम्बर 2014 भाग-2 के पृष्ठ क्रमांक 3616 से 3618 पर प्रकाशित वार्डों की जनसंख्या एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के स्थान पर संशोधित (शुद्धिपत्र) जनसंख्या को निम्नानुसार पढ़ा जावे:—

( गत जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार )

प्रस्तावित वार्ड का क्रमांक (1)	वार्ड का नाम (2)	कुल जनसंख्या (3)	जनसंख्या (अनुसूचित जाति) (4)	जनसंख्या (अनुसूचित जनजाति) (5)
1	गढ़ा	17700	1727	674
2	स्वामी वीरेन्द्र पुरी	17693	3419	879
3	त्रिपुरी	16124	3600	943
4	शंकरशाह नगर	17655	3090	708
5	सरदार वल्लभ भाई पटेल	17180	1831	992
6	इंदिरा गांधी	17195	1699	416
7	वीर सावरकर	17220	1664	590
8	ग्वारीघाट	17659	2875	1440
9	दादा बाबूराव परांजपे	17664	4442	1087
10	गुप्तेश्वर	17520	935	627
11	गिरिराज किशोर कपूर	16349	1940	727
12	जार्ज डिसिल्वा	14177	1941	599
13	पं. बनारसी दास भनोत	15063	1871	805
14	नरसिंह	15940	1669	1496
15	मदनमहल	17687	2328	1319
16	महाराणा प्रताप	15075	1700	636
17	रानी दुर्गावती	17707	3437	589
18	शहीद गुलाब सिंह	17444	1678	809

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	कमला नेहरू नगर	17448	765	865
20	कस्तूरबा गांधी	16792	2143	922
21	स्वामी विवेकानंद	15418	569	657
22	जवाहरगंज	13739	746	115
23	लोक. बालगंगाधर तिलक	17416	1557	46
24	हनुमानताल	14087	214	30
25	महात्मा गांधी	13117	785	105
26	गोविंद वल्लभ पंत	13931	690	94
27	चेरीताल	14821	2000	201
28	जयप्रकाश नारायण	15275	1218	168
29	डॉ. राममनोहर लोहिया	13258	3636	422
30	पं. दीनदयाल उपाध्याय	13252	1333	968
31	राजीव गांधी	13888	1306	180
32	सुभद्रा कुमारी चौहान	14139	424	327
33	स्वामी दयानंद सरस्वती	13401	595	240
34	पं. भवानी प्रसाद तिवारी	13201	412	130
35	महाराजा अग्रसेन	15418	1358	674
36	मौलाना अबुल कलाम आजाद	13567	491	8
37	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	13504	523	60
38	पं. मोतीलाल नेहरू	13409	821	276
39	चितरंजनदास	13412	466	100
40	डॉ. जाकिर हुसैन	15977	6	-
41	संजय गांधी	15821	50	5
42	नेताजी सुभाषचंद्र बोस	14665	2300	648
43	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	15466	3873	2290
44	आचार्य विनोबा भावे	13384	3967	402
45	शीतलामाई	17330	3131	282
46	पं. द्वारका प्रसाद मिश्र	13630	2405	344
47	सेठ गोविंददास	13575	3173	575
48	सिद्धबाबा	13672	3953	470
49	लाल बहादुर शास्त्री	16156	773	5
50	ठक्करग्राम	16287	3993	9
51	रविन्द्र नाथ टैगोर	15886	620	5
52	पं. मदनमोहन मालवीय	13307	3730	157
53	महर्षि अरविंद	17222	9332	640
54	पं. जवाहरलाल नेहरू	15010	3725	935
55	खेरमाई	15005	3727	220
56	शहीद अब्दुल हमीद	14486	1008	260

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
57	महर्षि महेश योगी	13501	481	300
58	सर्वपल्ली राधाकृष्णन	16436	8807	255
59	शहीद अशफाक उल्ला खां	14532	18	-
60	निर्मलचंद्र जैन	14211	733	1153
61	दीवान आधार सिंह	13466	1175	783
62	डॉ. भीमराव अम्बेडकर	14981	4045	1469
63	शहीद भगत सिंह	14297	3838	1745
64	महर्षि सुदर्शन	14641	3580	2362
65	सुभाष चंद्र बैनर्जी	16230	1347	702
66	रानी लक्ष्मीबाई	16163	4947	1699
67	वीरांगना रानी अवंतीबाई	17693	2704	1194
68	गोकलपुर	14851	2160	1422
69	चंद्रशेखर आजाद	15034	2214	490
70	लाला लाजपतराय	13101	1077	2472
71	नया वार्ड	17696	2543	1943
72	नया वार्ड	14594	2522	1701
73	नया वार्ड	16202	2873	1140
74	नया वार्ड	16903	3372	1394
75	नया वार्ड	17695	2299	3364
76	नया वार्ड	17195	1669	1540
77	नया वार्ड	17110	1685	2571
78	नया वार्ड	14349	3960	1779
79	नया वार्ड	13140	1583	1645
		1216445	173296	62294

दीपक खाण्डेकर, आयुक्त.

Jabalpur, the 26th September 2014

S.No. 1610-V-3-2014.— The details of population of wards of Municipal Corporation published in the page No. 3658 to 3660 of Madhya Pradesh Gazette Part-2 on 19th September 2014 are corrected and shall be read as below:—

**(Population Calculation based on the published statistics of Census 2011)**

S. No. of Proposed Ward (1)	Ward Name (2)	Total Population (3)	Population (Scheduled Cast) (4)	Population (Scheduled Tribe) (5)
1	Garha	17700	1727	674
2	Swami Virendra Puri	17693	3419	879
3	Tripuri	16124	3600	943

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Shankar Shah Nagar	17655	3090	708
5	Sardar Vallabh Bhai Patel	17180	1831	992
6	Indira Gandhi	17195	1699	416
7	Veer Savarkar	17220	1664	590
8	Gwarighat	17659	2875	1440
9	Dada Baburao Paranjpe	17664	4442	1087
10	Gupteshwar	17520	935	627
11	Giriraj Kishore Kapoor	16349	1940	727
12	George Da'silva	14177	1941	599
13	Pt. Banarsi Das Bhanot	15063	1871	805
14	Narsingh	15940	1669	1496
15	Madan Mahal	17687	2328	1319
16	Maharana Pratap	15075	1700	636
17	Rani Durgawati	17707	3437	589
18	Saheed Gulab Singh	17444	1678	809
19	Kamla Nehru Nagar	17448	765	865
20	Kasturba Gandhi	16792	2143	922
21	Swami Vivekanand	15418	569	657
22	Jawahar Ganj	13739	746	115
23	Lokmanya Bal Gangadhar Tilak	17416	1557	46
24	Hanumantal	14087	214	30
25	Mahatma Gandhi	13117	785	105
26	Govind Vallabh Pant	13931	690	94
27	Cherital	14821	2000	201
28	Jai Prakash Narayan	15275	1218	168
29	Dr. Ram Manohar Lohia	13258	3636	422
30	Pt. Deendayal Upadhyay	13252	1333	968
31	Rajiv Gandhi	13888	1306	180
32	Subhadra Kumari Chauhan	14139	424	327
33	Swami Dayanand Saraswati	13401	595	240
34	Pt. Bhawani Prasad Tiwari	13201	412	130
35	Maharaja Agrasen	15418	1358	674
36	Moulana Abul Kalam Azad	13567	491	8
37	Dr. Rajendra Prasad	13504	523	60
38	Pt. Motilal Nehru	13409	821	276
39	Chitranjan Das	13412	466	100
40	Dr. Zakir Hussain	15977	6	-
41	Sanjay Gandhi	15821	50	5
42	Netaji Subhash Chandra Bose	14665	2300	648
43	Dr. Shyama Prasad Mukherjee	15466	3873	2290
44	Acharya Vinoba Bhave	13384	3967	402
45	Sheetalamai	17330	3131	282
46	Pt. Dwarka Prasad Mishra	13630	2405	344

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
47	Seth Govind Das	13575	3173	575
48	Siddha Baba	13672	3953	470
49	Lal Bahadur Shastri	16156	773	5
50	Thakkar Gram	16287	3993	9
51	Ravindra Nath Tagore	15886	620	5
52	Pt. Madan Mohan Malviya	13307	3730	157
53	Maharshi Arvind	17222	9332	640
54	Pt. Jawahar Lal Nehru	15010	3725	935
55	Khermai	15005	3727	220
56	Saheed Abdul Hameed	14486	1008	260
57	Maharshi Mahesh Yogi	13501	481	300
58	Dr. Sarvapalli Radhakrishnan	16436	8807	255
59	Saheed Asfaque Ulla Khan	14532	18	-
60	Nirmal Chandra Jain	14211	733	1153
61	Diwan Adhar Singh	13466	1175	783
62	Dr. Bhim Rao Ambedhkar	14981	4045	1469
63	Shaheed Bhagat Singh	14297	3838	1745
64	Maharshi Sudharsan	14641	3580	2362
65	Subhash Chandra Banerjee	16230	1347	702
66	Rani Lakshmi Bai	16163	4947	1699
67	Virangna Rani Avanti Bai	17693	2704	1194
68	Gokalpur	14851	2160	1422
69	Chandra Shekhar Azad	15034	2214	490
70	Lala Lajpat Rai	13101	1077	2472
71	New Ward	17696	2543	1943
72	New Ward	14594	2522	1701
73	New Ward	16202	2873	1140
74	New Ward	16903	3372	1394
75	New Ward	17695	2299	3364
76	New Ward	17195	1669	1540
77	New Ward	17110	1685	2571
78	New Ward	14349	3960	1779
79	New Ward	13140	1583	1645
		1216445	173296	62294

**DEEPAK KHANDEKAR**, Commissioner.